

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अप्रैल 2015—चैत्र 26, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र.-बी-11-03-2015-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, शासन के पत्र क्रमांक बी-11-3-2014-2, दिनांक 5 दिसम्बर 2014 द्वारा रबी वर्ष 2014-15 के पटवारी हल्का की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें दतिया जिले में संलग्न अनुसार संशोधन कर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

पत्रक 'अ'

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2014-15 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की संशोधित सूची

| मौसम | रबी | वर्ष 2014-15 | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची | | | | | | |
|-------|-------|--------------|---|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | जिला | तहसील | रा.नि.मं. का नाम | पटवारी हल्का नं. | पटवारी मुख्यालय का नाम | गेहूं सिंचित | गेहूं असिंचित |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| दतिया | दतिया | गोरा | 1 | गोरा | गेहूं सिंचित | - | - | - | |
| | | | 2 | पचोखरा | गेहूं सिंचित | - | - | - | |
| | | | 3 | बड़ेरा | गेहूं सिंचित | - | - | - | |
| | | | 4 | बहुरूका | गेहूं सिंचित | - | - | - | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----|---------|-----|-------------|--------------|-----|-----|-----------|
| | | | 5 | उपरॉय | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 6 | बानोली | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 7 | डोंगरपुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 8 | बुधेड़ा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 9 | गढ़ी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 10 | सीतापुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 11 | रिछारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 12 | सिरोल | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | दतिया | 13 | कुम्हेड़ी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 14 | लैतरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 15 | सेनई | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 16 | सिधवारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 17 | झडिया | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 18 | रिछरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 19 | दतिया गिर्द | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 20 | रेढ़ा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 21 | बहादुरपुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 22 | बिडनिया | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 23 | डगरई | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 24 | बाजनी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 25 | निचरोली | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 26 | अगोरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | राजापुर | 27 | गंधारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 28 | चितुवाँ | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 29 | लरायटा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 30 | राजापुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 31 | सेरसा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 32 | ललउआ | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 33 | परासरी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 34 | गुजरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 35 | तगा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 36 | चिरूला | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 37 | करारीखुर्द | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 38 | भागौर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 39 | दुर्गापुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | उदगुवाँ | 40 | पलोथर | गेहूं सिंचित | - | - | राई सरसों |
| | | | 41 | उदगुवाँ | गेहूं सिंचित | - | - | राई सरसों |
| | | | 42 | नौनेर | गेहूं सिंचित | - | चना | राई सरसों |
| | | | 43 | बिलोनी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 44 | खदरावनी | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 45 | राजपुर | गेहूं सिंचित | - | चना | राई सरसों |
| | | | 46 | सनोरा | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 47 | गरेरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 48 | नुनवाहा | गेहूं सिंचित | - | - | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----------|--------|-----|------------|--------------|-----|-----|-----|
| | | | 49 | खमेरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 50 | कमरारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 51 | बनवास | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 52 | कटीली | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 53 | हतलव | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | टप्पा बसई | बसई | 54 | जैतपुर | - | - | - | - |
| | | | 55 | सतलोन | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 56 | बरधुवों | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 57 | साँकुली | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 58 | नयाखेड़ा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 59 | उर्दना | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 60 | मुड़रा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 61 | मकड़ारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 62 | ठकुरपुरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 63 | लखनपुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 64 | बसई | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | दतिया | इमलिया | 65 | अकोला | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 66 | नयागांव | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 67 | कुरेठा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 68 | नदाई | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 69 | गुढ़ा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 70 | सुजेड | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 71 | दिसवार | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 72 | बसवाहा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 73 | दुरसड़ा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 74 | चरबरा | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 75 | बुहारा | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 76 | खिरियाघोषू | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 77 | चिरौली | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 78 | राधापुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 79 | भिटौरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 80 | करखड़ा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 81 | बीकर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 82 | इमलिया | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | उनाव | 83 | धवारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 84 | इकारा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 85 | पठरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 86 | सड़वारा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 87 | दरयावपुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 88 | सासूती | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 89 | कृसौली | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 90 | देवरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 91 | रिछार | गेहूं सिंचित | - | - | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|--------|---------------|-----|---------------|--------------|-----|-----|-----------|
| | | | 92 | सिमरिया | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 93 | गुलमउ | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 94 | कामद | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 95 | भेदवरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 96 | तरगुवाँ | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 97 | उनाव | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | बड़ोनी | बड़ोनी | 1 | बड़ौनकला | गेहूं सिंचित | - | चना | राई सरसों |
| | | | 2 | डंगरा | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 3 | बामरौल | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 4 | बरगौय | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 5 | रावरी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 6 | ऐरई | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 7 | भदूमरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 8 | सिनावल | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 9 | महेवा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 10 | बड़ोनीखुर्द | गेहूं सिंचित | - | चना | राई सरसों |
| | | | 11 | मुरेरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 12 | गोविंदपुर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 13 | रामसागर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 14 | जिगना | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 15 | जौन्हार | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 16 | कुरथरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 17 | घूघसी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 18 | हिडौरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 19 | हिनोतिया | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | बिल्हारीखुर्द | 20 | बडगौर | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 21 | सिजौरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 22 | औरीना | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 23 | रावबुजुर्गा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 24 | बिल्हारीखुर्द | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 25 | सनाई | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 26 | सतारी | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 27 | हतलई | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 28 | सलैयापमार | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 29 | पठारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 30 | जनौरी | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 31 | गोंधारी | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 32 | छता | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 33 | सहदौरा | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 34 | लमकना | गेहूं सिंचित | - | - | - |
| | | | 35 | भाँसड़ाखुर्द | गेहूं सिंचित | - | चना | - |
| | | | 36 | भाँसड़ाकला | गेहूं सिंचित | - | चना | - |